

**थाना बण्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जनपद बरेली थाना कैन्ट से चोरी किये गये ट्रेक्टर ट्राली मय सीमेन्ट , 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार, 40 बोरी चोरी की सीमेन्ट, नगदी,03 अदद मोबाइल सहित 03 अदद अवैध तमंचे 06 अदद कारतूस बरामद ।**

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व नवनीत कुमार नायक क्षेत्राधिकारी पुवायों के निर्देशन मे थाना बण्डा पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली ।

इसी क्रम में दिनांक 23.09.2020 को व0उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार व उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार मय हमराही पुलिस बल के वास्ते पता रसी- सुराग रसी माल मुलजिमान, तलाश अज्ञात अभियुक्त गण सम्बन्धित मु0अ0सं0 534/2020 धारा 379 भादवि में थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर समय करीब 07.00 बजे शाम जंगली पीरशाह के पास भांभी मोड़ थाना बण्डा से 03 नफर अभियुक्त गण 1.पोथीराम पुत्र दीपचन्द 2. ओमप्रकाश पुत्र नत्थूलाल 3. तेजराम उर्फ अग्ने पुत्र राजाराम को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण के कब्जे से एक अदद ट्रेक्टर स्वराज 855 मय ट्राली मय चोरी किये गये 40 बोरा सीमेन्ट जे0के0 सुपर व चोरी किये गये सीमेन्ट बिक्री के 24,000/- रु0 नकद व जामा तलाशी से प्रत्येक अभि0 के कब्जे से 01/01 अदद तमंचा देशी नाजायज मय 02/02 जिन्दा कारतूस व तीन अदद मोबाइल बरामद हुए हैं। अभियुक्त गण ने पूछताछ में उक्त ट्रेक्टर को मय ट्राली मय ट्राली में भरे 200 बोरा सीमेन्ट सहित रामतीर्थ पुत्र बाबूराम व ननका पुत्र बुद्धसैन निवासी गण ग्राम टेढा लेखराज थाना बीसलपुर पीलीभीत तथा गोधन पुत्र श्यामलाल पता नामालूम के साथ मिलकर दिनांक 18/19.09.2020 की रात में लाल फाटक ओवरब्रिज के नीचे झील गोटिया थाना कैन्ट जनपद बरेली से चोरी करना बताया है। थाना कैन्ट जनपद बरेली से जानकारी करने पर उक्त ट्रेक्टर चोरी के सम्बन्ध में थाना कैन्ट बरेली पर मु0अ0सं0 512/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना बण्डा पर विधिक कार्यवाही करते कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता –**

- 1.पोथीराम पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम बिधौली थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत ।
2. ओमप्रकाश पुत्र नत्थूलाल निवासी ग्राम टेढा लेखराज थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत ।
3. तेजराम उर्फ अग्ने पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सुहेला थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत ।

**बरामदगी-**

- (1) एक अदद ट्रेक्टर स्वराज 855 रंग लाल, इंजन न0 47.5004 SWN16126 चैसिस न0 WYCN61910929794 मय ट्राली,
- (2) 40 बोरा जे0के0 सुपर सीमेन्ट,
- (3) चोरी किये गये सीमेन्ट बिक्री के 24,000/- रु0 नकद,
- (4) 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर
- (5) 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- (6) एक अदद मोबाइल JIO LYF रंग काला कीपेड,
- (7) एक अदद मोबाइल सेमसंग रंग काला कीपेड,
- (8) एक अदद मोबाइल वीवो टच स्क्रीन रंग काला,

**अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-**

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2.व0उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 4.का0 871 नरवीन
- 5.का0 386 गौरव वाजपेयी
- 6.का0 1859 प्रेमपाल
- 7.का0 1872 ललित कुमार
- 8.का0 2133 मोहित राठी
- 9.का0 2319 अनुराग गौतम थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर